# फिरकी

अंक 8

Firkee बच्चों की

**चाश्नी का ताल**

चाश्नी के ताल में
चींटियों की दावत थी
जलेबी के जाल में।

– उषा शर्मा

चित्र – प्रशांत सोनी

Firkee 8 final.indd 1 21-12-2017 09:38:06




# भूखा मर गया पेट

बारह बज गए
बारह बज गए
ऊपर बज गया एक
मास्टर जी अब छुट्टी दे दो
भूखा मर गया पेट।

– काव्य संकलित कविता

*चित्र* — शुभम लखेरा



Firkee 8 final.indd 2 21-12-2017 09:38:07

# इस फिरकी में कहानी कविता का पता


चाश्नी का ताल 1

भूखा मर गया पेट 2

राजा और चिड़िया 4

One Two Three  7

The Nightmare 8

कंचे का गीत 10

I'm A Dingly Dangly Scarecrow 11

सेमल के फूल 12

हाथ का कमाल 14

आसमान में तारे 15

रिया और कीटू 16

When I was a Little Boy 19

बस में भेड़ 20

कुछ हम लिखें, कुछ तुम लिखो 22

अंडे में एक अंडा है 23

देखो, मैंने क्या बनाया ! 24

Firkee 8 final.indd 3 21-12-2017 09:38:18

# राजा और चिड़िया

एक चिड़िया को कहीं से एक मोती मिला। चिड़िया ने उसे अपनी नाक में पहन लिया। फिर वह राजा के महल पर जा बैठी और गाने लगी – मैं राजा से बड़ी, मेरी नाक में मोती।

यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने आदमियों से कहा – चिड़िया का मोती छीन लाओ। उन्होंने झट से चिड़िया से मोती छीन लिया।

अब चिड़िया पहले वाला गाना छोड़कर दूसरा गाना गाने लगी – राजा भिखारी, मेरा मोती छीन लिया। यह गीत सुनकर राजा बड़ा शरमाया।



उसने चिड़िया को उसका मोती लौटा दिया। मोती मिलने पर चिड़िया ने एक और नया गीत शुरू किया – राजा तो डर गया, मेरा मोती दे दिया।



Firkee 8 final.indd 5 21-12-2017 09:38:21

यह गीत सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा – पकड़ लाओ इस शैतान चिड़िया को।

उसके आदमी चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़े, मगर चिड़िया फुर्र से उड़ गई। राजा हाथ मलता रह गया।

– साभार एकलव्य

*चित्र* – निलेश गहलोत



Firkee 8 final.indd 6 21-12-2017 09:38:22

# One, Two, Three

One, two, three
The bumble-bee,
The rooster crows
And away he goes.



*Illustration* — Atanu Roy



Firkee 8 final.indd 7 21-12-2017 09:38:23

*Illustration* — Aadishri Kher

# The Nightmare

One day Aadishri and Jiya were playing hide and seek. Aadishri went inside a big old house to hide from Jiya. It was dark inside. Suddenly, she saw a shadow moving towards her. She screamed. Then, she heard a meow. Oh! It was just the shadow of a cat. She quickly ran out of the house and looked for her friend Jiya. She could not find her and started walking towards her home. But on the way, Aadishri saw a giant coming towards her. The giant said, "Wake up or else you will be late"! Aadishri opened her eyes to find her mother. It was just a big scary NIGHTMARE!

Aadishri Kher
V-F
Amity International School
Sector 46, Gurgoan, Haryana



Firkee 8 final.indd 9 21-12-2017 09:38:24



# कंचे का गीत

हरी हरावै, लाल जितावै।
नीली–पीली, टक्कर खावै।

चित्र—शुभम लखेरा



Firkee 8 final.indd 10 21-12-2017 09:38:25

# I'm A Dingly Dangly Scarecrow



I'm a dingly dangly scarecrow,
with a flippy floppy hat.
I can shake my hands like this,
I can shake my feet like that.

*Illustration* — Mayukh Ghosh

# सेमल के फूल

Firkee 8 final.indd 12 21-12-2017 09:38:26

*चित्र* — शशि शेट्ये



Firkee 8 final.indd 13 21-12-2017 09:38:27

# हाथ का कमाल







*साभार* — दीक्षा जोशी



Firkee 8 final.indd 14 21-12-2017 09:38:28

# आसमान में तारे

आसमान में कितने तारे
क्या तुमको दिखते हैं सारे
किस – किस का तुम नाम जानते
कौन है कितने पास तुम्हारे ?

–अनवारे इस्लाम

चित्र – सुनीता






Firkee 8 final.indd 15 21-12-2017 09:38:29

# रिया और कीटू

सर्दी के दिन थे। रिया
चूल्हे के पास बैठी थी।

कीटू बिल्ली रिया से सटकर
चूल्हे के पास बैठ गई।

रिया जल्दी करो, स्कूल
जाना है– मम्मी ने कहा।

बिल्ली ने अँगड़ाई ली।
रिया को यह अच्छा लगा।
उसने भी अँगड़ाई ली।



Firkee 8 final.indd 16 21-12-2017 09:38:32



कीटू ने जम्हाई ली। रिया ने भी जम्हाई ली। कीटू ने आँखें झपकाई। रिया ने भी आँखें झपकाई।

बिल्ली ने अपने मुँह पर जीभ फिरायी। रिया ने भी जीभ फिरायी।

कीटू ने पंजा मुँह पर फिराया। रिया ने भी मुँह पर हाथ फिराया। कीटू ने अपनी पीठ पर जीभ फिरायी, रिया ने कहा– एक मिनट।

वह अंदर जाकर एक लाल रिबन लाई। रिबन का एक सिरा मुँह में डाला। अब वह कहीं भी जीभ फिरा सकती थी।

– चेतन आचार्य

*चित्र*— प्रशांत सोनी

# फिरकी में खोजो

ऊपर दिए गए चित्र इस फिरकी में तुमने कहाँ-कहाँ देखे?



Firkee 8 final.indd 18 21-12-2017 09:38:36

# When I was a Little Boy

**When I was a little boy**
**I washed my mother's dishes.**
**I put my finger in my ear,**
**And pulled out little fishes.**

*Illustration*—Atanu Roy



Firkee 8 final.indd 19 21-12-2017 09:38:41

# बस में भेड़

बस में एक
गडरिया आया
कंडक्टर उस
पर झल्लाया
भाई तू भेड़ों
का  रेवड़
बस के अंदर
भी ले आया।

– प्रभात

*चित्र* – मयूख घोष





Firkee 8 final.indd 20 21-12-2017 09:38:42



# कुछ हम लिखें, कुछ तुम लिखो

गुड़िया भी सुंदर
बुढ़िया भी सुंदर
बुढ़िया की बेटी
सुंदर भी सुंदर।

सुंदर गगन है
सुंदर समंदर
- - - - - - - - का बेटा
चंदर भी सुंदर।

घड़ियाँ भी सुंदर
बुढ़िया का - - - - - - - -
कलंदर भी सुंदर।

- - - - - - - - - भी सुंदर
तान भी सुंदर
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -।

– प्रभात

*चित्र* — हीरा ध्रुवे

Firkee 8 final.indd 22 21-12-2017 09:38:44

# अंडे में एक अंडा है

– साभार एकलव्य

काँच, करतब, कॉकरोच, कार्टून...
इस चित्र को देखकर तुम कौन-कौन से शब्द सोच पाते हो?



Firkee 8 final.indd 23 21-12-2017 09:38:44

# देखो, मैंने क्या बनाया!

**गार्गी** – माइंड ट्री स्कूल, अंबाला, हरियाणा

**गुंजन** – शारदा विद्या मंदिर, रतिबाद रोड़, भोपाल, मध्यप्रदेश

**आद्या जोशी**
दिल्ली पब्लिक स्कूल, भदभदा रोड़, भोपाल, मध्यप्रदेश

**रुद्रा प्रताप सिंह**
द आइकोनिक स्कूल, बिसन खेड़ी, भोपाल, मध्यप्रदेश

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

**सर्वाधिकार सुरक्षित**

» प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।

» इस दस्तावेज की आंशिक या समग्र रूप से समीक्षा, सारांश, पुनः उत्पादन अथवा अनुवाद किया जा सकता है लेकिन इसे न तो विक्रय के लिए और न ही किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाए।

» इस पत्रिका की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पत्रिका अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।

**संपादन मंडल**

**शैक्षणिक संपादक** – उषा शर्मा
मीनाक्षी खार
**संपादन मंडल** – कीर्ति कपूर
ज्योत्स्ना तिवारी
डी. के. शिंदे
वरदा निकालजे
श्वेता उप्पल
संध्या सिंह
सोनिका कौशिक
**सहयोग** – नन्दिता
विजयन्ती
**साज-सज्जा** – गिरीश गोयल

**प्रकाशन सहयोग**

**अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग** : एम. सिराज अनवर
**मुख्य संपादक** : श्वेता उप्पल
**मुख्य व्यापार प्रबंधक** : गौतम गांगुली
**मुख्य उत्पादन अधिकारी** : अरुण चितकारा
**सहायक उत्पादन अधिकारी** : जहान लाल

**सुझावों तथा प्रतिक्रियाओं के लिए संपर्क करें-**
उषा शर्मा एवं मीनाक्षी खार (कार्यकारी संपादक)
**प्रारंभिक साक्षरता कार्यक्रम**
कक्ष संख्या 307, तीसरी मंज़िल, जी. बी. पंत ब्लॉक
एन.सी.ई.आर.टी., श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली - 110016
दूरभाष- 011-26592293
ईमेल- earlyliteracy.ncert@gmail.com

**PD 5T RPS**

*© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2017*

80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविन्द मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा पुष्पक प्रैस प्राइवेट लिमिटेड, 203-204 डी.एस.आई.डी.सी. शेड्स, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फ़ेज़-I, नयी दिल्ली 110 020 द्वारा मुद्रित।

ISBN 978-93-5292-000-6

21134
विद्यया ऽ मृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT

**राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्**
**NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING**
श्री अरविन्द मार्ग, नयी दिल्ली 110 016

**₹ 20.00**